



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०५ पटना, बुधवार, १३ माघ १९३२ (श०)  
२ फरवरी २०११ (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। ---	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-१-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-९—विज्ञापन ---
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। २-४	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-४—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

# भाग-2

## बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियंता का कार्यालय  
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश

4 जनवरी 2011

का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-110/2009-04-21-सिवान—समाहर्ता—सह—अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण (छपरा) के पत्रांक 178 मु0/स्था0, दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण (छपरा) की दिनांक 30 अप्रैल 2010 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 16 जुलाई 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री टूनटून कुमार सिंह, पिता स्व0 राजबल्लभ सिंह, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल, छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु० 5200-20200 + ग्रेड पे-1800 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढौरा के कार्यालय में दिनांक 30 जनवरी 2011 तक निश्चित रूप से दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 राज बल्लभ सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री टूनटून कुमार सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण (छपरा) के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री टूनटून कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री टूनटून कुमार सिंह, से भरण-पोषण-पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,  
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

## पथ निर्माण विभाग

## अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)

12 जनवरी 2011

सं० ई 3-एस-101/2000 (अंश)-479 (एस०)—विभागीय अधिसूचना संख्या 11299 (एस) डब्लू०ई०—सहपटित ज्ञापांक 11300 (एस), दिनांक 2 अगस्त 2010 द्वारा प्रकाशित अभियंताओं की अंतिम सिविल लिस्ट को प्राप्त अभ्यावेदनो के आलोक में जाँच एवं समीक्षा के उपरान्त निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :-

1. सिविल लिस्ट क्रमांक 188 पर अंकित श्री भवानी नंदन का प्राप्तांक 47.87 के स्थान पर 47.67 पढ़ा जाय एवं तदनुसार श्री रमेश कुमार सिविल लिस्ट क्रमांक 189 को संशोधित करते हुए सिविल लिस्ट क्रमांक 188 एवं श्री भवानी नंदन, सिविल लिस्ट क्रमांक 188 को संशोधित करते हुए सिविल लिस्ट क्रमांक 189 निर्धारित किया जाता है।
2. सिविल लिस्ट क्रमांक 174, पर अंकित श्री केदार बैठा का प्राप्तांक 54.61 के स्थान पर 59.65 पढ़ा जाय।
3. श्री अशोक कुमार, सिविल लिस्ट क्रमांक 1047 के सेवा संपुष्टि की तिथि 1 दिसम्बर 2006 अंकित की जाती है।
4. श्री विवेकानंद सिंह, सिविल लिस्ट क्रमांक 113 के योगदान की तिथि 25 मार्च 1981 अंकित की जाती है।
5. श्री ठाकुर प्रमोद कुमार, सिविल लिस्ट क्रमांक 1041 की शैक्षणिक योग्यता ME अंकित की जाती है।
6. श्री नारायण चौधरी, सिविल लिस्ट क्रमांक 441 के जन्म-तिथि को नियुक्ति पंजी के अनुसार संशोधित करते हुए 18 नवम्बर 1956 के स्थान पर 18 जनवरी 1957 अंकित किया जाता है।
7. राम भरत प्रसाद, सिविल लिस्ट क्रमांक 446 का अंकित जन्म-तिथि 25 मार्च 1958 नियुक्ति पंजी के अनुसार सही है तथा गृह जिला नालंदा अंकित किया जाता है।
8. श्री दिनेश प्रसाद मंडल, सिविल लिस्ट क्रमांक 1631 के आरक्षण कोटि को अनुसूचित जाति के बदले अनुसूचित जन जाति अंकित किया जाता है।
9. श्री बाला लखन्दर दास, सिविल लिस्ट क्रमांक 623 का गृह जिला-अरवल अंकित किया जाता है।
10. श्री राज कुमार लाल, सिविल लिस्ट क्रमांक 430 के सेवा संपुष्टि की तिथि 6 अगस्त 2005 अंकित किया जाता है।
11. सिविल लिस्ट क्रमांक-49, इन्द्र प्रसाद कुशवंशी को संशोधित करते हुए इन्दु भूषण प्रसाद कुशवंशी अंकित किया जाता है।
12. श्री नवनील कुमार हिमांशु, सिविल लिस्ट क्रमांक 1349 की शैक्षणिक योग्यता M. Tech (Civil) अंकित किया जाता है।
13. श्री सुभाष कुमार गुप्त, सिविल लिस्ट क्रमांक 940, के सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2021 के स्थान 31 अगस्त 2028 अंकित किया जाता है।
14. श्री संजय कुमार, सिविल लिस्ट क्रमांक-841 की आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति, योगदान की तिथि 8 मई 1997 एवं सेवा संपुष्टि की तिथि 13 अक्टूबर 2009 अंकित किया जाता है।
15. सिविल लिस्ट क्रमांक 1174 पर अंकित श्री चन्द्रशेखर प्रसाद का कनीय अभियंता के रूप में वरीयता क्रमांक 2311/09 है अतः सिविल लिस्ट क्रमांक 1619, कनीय अभियंता, वरीयता क्रमांक 2299/09 श्री जगन्नाथ महतो, सिविल लिस्ट क्रमांक 1620, कनीय अभियंता का वरीयता क्रमांक 2300, श्री विजय कुमार एवं सिविल लिस्ट क्रमांक 1621, कनीय अभियंता का वरीयता क्रमांक 2301/09 श्री सुरेश कुमार चौधरी का सिविल लिस्ट क्रमांक संशोधित करते हुए सिविल लिस्ट क्रमांक-1173 के नीचे एवं सिविल लिस्ट क्रमांक 1174 के उपर क्रमशः 1173A, 1173B एवं 1173C निर्धारित किया जाता है।
16. सिविल लिस्ट क्रमांक 595 से 601 के अभ्युक्ति में अधिसूचना संख्या 5765 (एस), दिनांक 21 अक्टूबर 1991 अंकित किया जाता है क्योंकि बीच में इनकी नियुक्ति रद्द की गई एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 5606 (एस), दिनांक 22 सितम्बर 1995 द्वारा इनकी पुर्ननियुक्ति कर ली गई तथा बीच की अवधि को देय अवकाश/असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया गया है।
17. सिविल लिस्ट क्रमांक 702, श्री रविकान्त की जन्म-तिथि 3 जुलाई 1968, सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 जुलाई 2028, योगदान की तिथि 15 जून 1995 तथा सेवा संपुष्टि की तिथि 22 फरवरी 2007 अंकित किया जाता है।

18. सिविल लिस्ट क्रमांक 1185, श्री राणा बनर्जी की जन्म-तिथि 1 जनवरी 1970, तथा सेवा निवृत्ति की तिथि 31 दिसम्बर 2029 अंकित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
योगेन्द्र भक्त, विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>